

## “अन्डर स्टैंडिंग एंड मैनेजिंग द मीडिया कोर्स क्र. सं.- 13 (ऑनलाइन)”

(दिनांक 08 मार्च से 10 मार्च, 2021 तक)

आंतरिक सुरक्षा अकादमी, माउंट आबू ने दिनांक 08 मार्च से 13 मार्च, 2021 तक अन्डर स्टैंडिंग एंड मैनेजिंग द मीडिया कोर्स क्र.सं.- 13 ऑनलाइन का आयोजन किया। पूरे देश से केरिपुबल के विभिन्न संस्थानों से इस कोर्स में उप महानिरीक्षक -01, कमांडेंट- 02, उप कमा. - 14, सहा. कमा.- 35 सहित कुल 52 अधिकारियों ने भाग लिया।

इस कोर्स का उद्देश्य मीडिया के प्रबंधन के लिए केरिपुबल अधिकारियों के कौशल का निर्माण करना और मीडिया के साथ बेहतर संचार के लिए उत्पन्न संचार सामग्री की गुणवत्ता को बढ़ाना है।

श्री अरुण कुमार, निदेशक / महानिरीक्षक, आ.सु.अ. आबू पर्वत द्वारा कोर्स का उद्घाटन और समापन किया गया, उन्होंने प्रतिभागियों को अपने उद्बोधन में बल और मीडिया के साथ बेहतर संचार स्थापित करने के बारे में बताया ।

इसके अलावा निदेशक आंसुअ के नेतृत्व में संकाय अधिकारी, विभिन्न प्रख्यात वक्ता श्री एम. दिनाकरन, उप महानिरीक्षक, समूह केंद्र, आवड़ी, केरिपुबल, श्री आदित्य राज कौल, योगदान संपादक, सीएनएन - नेटवर्क, श्री प्रिंस भारद्वाज, सहा. कमा., आसूचना महानिदेशालय, केरिपुबल, सुश्री कमलजीत कौर संधू, उप संपादक, इंडिया टुडे, श्री नीलाभ श्रीवास्तव, सहायक संपादक, पीटीआई, नई दिल्ली ने देश के विभिन्न हिस्सों से ऑनलाइन व्याख्यान दिए और प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया।




श्री अरुण कुमार, निदेशक / महानिरीक्षक, आ.सु.अ., आबू पर्वत, केरिपुबल द्वारा ऑनलाइन उद्घाटन किया गया ।



श्री एम. दिनाकरन, उप महानिरीक्षक, केरिपबल, आंतरिक सत्र में बल में सेक्टर / यूनिट स्तर पर मीडिया हैंडलिंग निर्देशों का अवलोकन के बारे में ऑनलाइन व्याख्यान देते हुए।



श्री आदित्य राज कौल, योगदान संपादक, सीएनएन - नेटवर्क, आंतरिक सत्र में मीडिया प्रबंधन का महत्व और मीडिया इंटरैक्शन को प्रदर्शित करने और घटना को परखने के बारे में ऑनलाइन व्याख्यान देते हुए।



श्री प्रिंस भारद्वाज, सहा. कमा., आसूचना महानिदेशालय, आंतरिक सत्र में सोशल मीडिया का महत्व: - फेसबुक, ट्विटर, ब्लॉग्स, डिजिटल कनेक्ट और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का संचालन के बारे में आंतरिक सत्र में ऑनलाइन व्याख्यान देते हुए।



सुश्री कमलजीत कौर संधू, उप संपादक, इंडिया टुडे, मीडिया प्रस्तुति की तैयारी: तुर्क, विचारों को संप्रेषित करने के लिए मीडिया प्रस्तुतियाँ पर ऑनलाइन व्याख्यान देती हुई।



श्री अरुण कुमार, निदेशक / महानिरीक्षक, आ.सु.अ. आबू पर्वत द्वारा समापन सम्बोधन।